

निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए।

ठाली बैठे, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है, नवाब साहब ने बिलकुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मँझले दर्जे में सफर करता देखे।... अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएँ? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे।

(i) लेखक की पुरानी आदत क्या थी?

- (क) गीत गाते रहना
  - (ख) दूसरों से बातें करना
  - (ग) कल्पना करते रहना
  - (घ) इनमें से कोई नहीं
- उत्तर
- (ग) कल्पना करते रहना

(ii) लेखक किसकी असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे?

- (क) अपनी पत्नी की
  - (ख) स्वयं की
  - (ग) नवाब साहब की
  - (घ) अपने मित्रों की
- उत्तर
- (ग) नवाब साहब की

(iii) लेखक ने क्या-क्या अनुमान लगाया?

- (क) नवाब साहब एकांत में यात्रा करना चाहते होंगे
  - (ख) बचत करना चाहते होंगे
  - (ग) अकेलेपन को दूर करने के लिए खीरे खरीदे होंगे
  - (घ) उपर्युक्त सभी
- उत्तर
- (घ) उपर्युक्त सभी

(iv) नवाब साहब खीरे क्यों नहीं खा रहे थे?

- (क) संकोचवश
- (ख) उन्हें खीरे अच्छे नहीं लगते
- (ग) ट्रेन में खाना मना है
- (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर

(क) संकोचवश

(v) डिब्बे में चढ़ते समय लेखक का क्या अनुमान था?

(क) डिब्बे में भीड़ होगी

(ख) डिब्बा खाली होगा

(ग) डिब्बे में चढ़ना मुश्किल होगा

(घ) उपर्युक्त सभी

उत्तर

(ख) डिब्बा खाली होगा